



संख्या: नि.य.उप-2/2024/NIQ/ 52-56

दिनांक: 24/01/2025

कोटेशन आमंत्रण सूचना/ NOTICE INVITING QUOTATION

निचली यमुना उपमण्डल-2, सीडब्ल्यूसी, आगरा के अंतर्गत इटावा जीडीएसक्यू साइट, सीडब्ल्यूसी में इटावा कार्यालय पर सीढ़ी निर्माण करने के संबंध के कार्य के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा ठेकेदारों से मुहरबंद / बंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। (कार्य की अनुसूची अनुसार- Annexure- I) Sealed/closed quotations are hereby invited by the undersigned on behalf of President of India from the contractors for the work of Construction of staircase at Etawah site Under Lower Yamuna Sub-Division-2, CWVC, Agra. (As per Schedule of work enclosed as Annexure- I)

कोटेशन 03/02/2025 को 15:00 बजे तक या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए और उसी दिन 15:30 बजे इच्छुक कोटेशनकर्ताओं, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोला जाएगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उपरोक्त तिथि पर कोटेशन नहीं खोला जा सका, तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के अगले कार्य दिवस पर खोला जाएगा।

The quotation should reach in the office of the undersigned on or before 03/02/2025 up to 15:00 hrs and will be opened on the same day at 15:30 hrs in the presence of intending quotationers, if any. If quotation could not be opened on aforesaid date due to unavoidable circumstances, then same will be opened on next working day without any further notice.

नियम एवं शर्तें / Terms & Conditions

- कार्य प्रभारी अभियंता के विनिर्देश एवं निर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए/ The work should be done as per specification & direction of Engineer in-charge).
- दरें जीएसटी सहित अंक एवं शब्द दोनों में उद्धृत की जानी चाहिए, इस संबंध में किसी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा/ Rates should be quoted both in figure and words including GST, No other claims will be entertained in this regard.
- बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे कार्य की आवश्यकता को समझने के लिए बोली जमा करने से पहले साइट पर जाएँ/ Bidders are requested to visit the site before submitting the bid to understand the requirement of the work
- अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को अस्वीकार करने और मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है/ Undersigned reserves the right to reject any or all the quotations and to alter the quantity without assigning any reasons thereof.
- दरें कोटेशन खुलने की तारीख से कम से कम 60 दिनों तक वैध रहेंगी/ The rates shall be valid for 60 days minimum from the date of opening of the quotation
- सीपीडब्ल्यूसी कोड का कोई भी अन्य नियम और इसमें लागू होने वाला संशोधन सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा/ Any other rules of CPWD codes and its amendments as applicable will be binding on the successful bidder.
- जीएसटी पंजीकरण संख्या, पैन नंबर और किसी भी सिविल कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न की जानी चाहिए /Signed copy of GST Registration number, PAN No and Experience certificate any civil work should be attached.
- कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए /The work should be completed within 30 days from the date of issue of work order.
- कार्य के सत्यापन के बाद भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए बिल तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा/ The payment will be made through PFMS after verification of Schedule of work for which bill in triplicate shall be submitted to this Office.
- आयकर एवं अन्य कर आदि नियमानुसार बिल से काटा जायेगा /Income tax & other tax etc. shall be deducted from the bill as per rule.
- सुरक्षा जमा बिल से काट लिया जाएगा और सीपीडब्ल्यूसी नियमों के अनुसार संतोषजनक कार्य के बाद जारी किया जाएगा/ Security deposit will be deducted from bill and will be released after satisfactory work as per the CPWD rules.
- कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा. / No advance payment shall be made.

13. सभी सुधार और ओवर राइटिंग विधिवत सत्यापित होनी चाहिए/All the corrections and over writings should be duly attested.
14. सीलबंद कोटेशन लिफाफे के ऊपर कोटेशन के रूप में कार्य का नाम " इटावा जीडीएसक्यू साइट कार्यालय, अधीनस्थ निचली यमुना उपमंडल-2, सीडब्ल्यूसी, आगरा पर सीढ़ी निर्माण करने के संबंध लिखा होना चाहिए/ The sealed quotation cover should be super-scribed with the name of work as Quotation for " Construction of staircase at Etawah site" Under Lower Yamuna Sub-Division-2, CWC, Agra"
15. सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली के अनुसार NIQ के साथ रुपये 2000.00 (केवल दो हजार रुपये) की बयाना राशि (ईएमडी) Executive Engineer, Lower Yamuna Division, Central Water Commission, Agra के पक्ष में डीडी/एफडीआर के रूप में संलग्न करनी होगी। असफल कोटेशनकर्ताओं की ईएमडी नियम के अनुसार वापस कर दी जाएगी और सफल कोटेशनर्स ईएमडी का हिस्सा बन जाएंगे। सुरक्षा जमा एवं नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। निर्दिष्ट बयाना राशि के बिना प्रस्तुत एनआईक्यू को अस्वीकार कर दिया जाएगा और संबंधित बोली नहीं खोली जाएगी/The NIQ shall be accompanied by Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 2000.00 (Rupees Two Thousand only) in form of DD/FDR in favor of Executive Engineer, Lower Yamuna Division, Central Water Commission, Agra as per CPWD works manual. Unsuccessful quotationers EMD shall be returned as per rule and successful quotationor EMD shall become part of Security Deposit and shall be discharged as per rules. The NIQ submitted without specified Earnest Money, shall be rejected and the corresponding bid shall not be opened.

भवदीय/ Yours Faithfully

(Handwritten Signature)
24/01/25

(दौलत राम बैरवा/ Daulat Ram Bairwa)
(उपमंडलीय अभियंता/Sub Divisional Engineer)

प्रतिलिपि / Copy To :-

1. श्रीमान अधिशासी अभियंता, निचली यमुना मंडल, केंद्रीय जल आयोग, आगरा को सूचनार्थ एवं CWC Tender Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है। Executive Engineer, Lower Yamuna Division, Central Water Commission, Agra for information and uploading on CWC Tender Website.
2. लेखा शाखा, निचली यमुना मंडल, केंद्रीय जल आयोग, आगरा/Accounts Branch, LYD, CWC, Agra
3. नोटिस बोर्ड निचली यमुना उपमंडल-2, केंद्रीय जल आयोग, आगरा/ Notice Board LYSD-2, CWC, Agra
4. कनिष्ठ अभियंता निचली यमुना उपमंडल-2, केंद्रीय जल आयोग, आगरा / स्थल इटावा / Junior Engineer LYSD-2, CWC, Agra/ Site Etawah




Schedule of Work

Name of work:-Construction of staircase at Etawah site under LYSD-2, Agra Under Lower Yamuna Sub-Division-2, CWC, Agra.

It. no.	Description of work	Quantity	Unit	Rate (Rs.) (inclusive GST)	Amount (Rs.) (inclusive GST)
1	Earth work in surface excavation not exceeding 30 cm in depth but exceeding 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-in charge. All kinds of soil	2.290	CUM		
2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level : 1:3:6 (1 Cement : 3 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 6 graded stone aggregate 20 mm nominal sized derived from natural sources	0.250	CUM		
3	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non Modular) bricks of class designation 7.5 in super structure above plinth level up to V level in all shape and sizes in Cement Mortar 1: 4 (1 Cement : 4 Coarse Sand)	1.375	CUM		
4	Reinforced cement concrete work in beam, suspended floors, roofs having slopes of 15° landing, balconies, shelves, chhajjas, lintels, bands, plain window sills, staircases and spiral stair cases above plinth level up to floor five level, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement with 1:1.5:3 (1 cement: 1.5 coarse sand (Zone-III) derived from natural sources: 3 graded stone aggregate 20 mm derived from natural sources)	2.216	CUM		
5	Steel Reinforcement, steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete all complete upto plinth level. Thermo mechanically treated bars of grade Fe-500 D or More	178.998	Kg		
6	Formwork Centring and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for Suspended floors, roof, landings, balconies and access platform	16.417	SQM		
7	12 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)	24.159	SQM		
8	Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS :2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutters: 35 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws	5.250	SQM		
9	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade :Two or more coats on new work	10.500	SQM		
10	Providing and fixing aluminium sliding door bolts, ISI marked anodised (anodic coating not less than grade AC 10 as per IS : 1868), transparent or dyed to required colour or shade, with nuts and screws etc. complete : 250x16 mm	6.000	Nos.		
11	Providing and fixing aluminium handles, ISI marked, anodised (anodic coating not less than grade AC 10 as per IS : 1868) transparent or dyed to required colour or shade, with necessary screws etc. complete :125 mm	6.000	Nos.		
Total					
Say Total					
	(Rupees only) Inclusive of GST.				

Signature of Contractor with Seal

Name of Work: Construction of stairs at Etawah site under LYSD-2, Agra

Annexure-1
Layout not to be Scale

उपमण्डलीय अभियन्ता / Sub-Divisional Engineer
निचली यमुना उपमण्डल-2/L.Y.S.D.-2
केन्द्रीय जल आयोग/C.W.C.
आगरा/AGRA